

ICRA Limited

August 21, 2020

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers **Dalal Street**

Mumbai 400 001, India

Scrip Code: 532835

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block Bandra-Kurla Complex

Bandra (East)

Mumbai - 400 051, India

Symbol: ICRA

Dear Sir/Madam,

Sub.:- Advertisement copies

Please find enclosed copies of the notice published in the following newspapers on August 20, 2020:

- 1. Financial Express
- 2. Jansatta

You are requested to take the above on record.

Regards,

Sincerely,

(S. Shakeb Rahman) Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

FINANCIAL EXPRESS

CIN: L45400WB1997PLC083457 Regd. Office: "Ananta Bhavan", 94 Vivekanand Nagar, PO: Podrah, Andul Road, Near Narayana Hospital, 3rd Floor, R.No. 301, Howrah – 711 109 Phone: 91.82320 62881, E-mail: info@silverpointinfratech.com Website: www.silverpointinfratech.com

NOTICE

SILVERPOINT INFRATECH LIMITED

NOTICE is hereby given that the 23rd Annual General Meeting (AGM) of the Members of Silverpoint Infratech Limited will be held on Saturday, the 19th day of September, 2020 at 10.00 A.M. at "Ananta Bhavan", 94 Vivekananda Nagar, PO: Podrah, Andul Road, Near Narayana Hospital, 3rd Floor, R.No. 301, Howrah – 711 109 to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice dated August 11, 2020. Notice convening the AGM setting out the business to be transacted at the Meeting along

with the Explanatory Statement, Financial Statement, Attendance Slip, Proxy Form and the Circular for Voting through electronic means will be sent to the Members by August 19, 2020. The Company has also uploaded these documents on the website of the Company at www.silverpointinfratech.com. Further, Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013

read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 13th September, 2020 to 19th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of the AGM of the Company. Members are advised that the business at the AGM may be transacted through E-voting.

The E-voting period commences on 16th September, 2020 at 9.00 A.M and ends on 18th September, 2020 at 5.00 P.M. The E-voting shall not be allowed beyond the said date and time. During this period the members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date (record date) i.e. 12th September, 2020 may cast their vote electronically. The shareholders attending the meeting physically or through proxy may cast their vote

through ballot at the venue of the meeting. However, in case of vote already casted through remote E-voting, any further voting at venue through ballot shall be treated as invalid and voting through remote e-voting shall prevail M/s. Rateria & Associates, Practicing Company Secretary, Kolkata has been appointed as

the Scrutinizer for the E-voting and voting by ballot process in a fair and transparent For any grievance in the matter of e-voting, the undersigned may be contacted by e-mail a

info@silverpointinfratech.com or over phone at 91.82320 6288 By Order of the Board For Silverpoint Infratech Limited

Place: Howrah Date: August 19, 2020

Sonam Agarwal (Company Secretary)

ANUBHAY INFRASTRUCTURE LIMITED CIN: L51109WB2006PLC107433

Regd. Office: "Ananta Bhavan", 94 Vivekanand Nagar, PO: Podrah, Andul Road, Near Narayana Hospital, 3rd Floor, R.No.303, Howrah – 711 109 Phone: 82320 13440, E-mail: info@anubhavinfrastructure.com Website: www.anubhavinfrastructure.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 15th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Anubhav Infrastructure Limited will be held on Saturday, the 19th day of September, 2020 at 10.30 A.M. at "Ananta Bhavan", 94 Vivekanand Nagar, PO: Podrah, Andul Road, Near Narayana Hospital, 3rd Floor, R.No. 303, Howrah - 711 109 to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice dated August 12, 2020. Notice convening the AGM setting out the business to be transacted at the Meeting along

with the Explanatory Statement, Financial Statement, Attendance Slip, Proxy Form and the Circular for Voting through electronic means will be sent to the Members by August 19, 2020. The Company has also uploaded these documents on the website of the Company at www.anubhavinfrastructure.com.

Further, Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 13th September, 2019 to 19th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of the AGM of the Company

Members are advised that the business at the AGM may be transacted through E-voting. The E-voting period commences on 16th September, 2020 at 9.00 A.M and ends on 18th September, 2020 at 5.00 P.M. The E-voting shall not be allowed beyond the said date and time. During this period the members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date (record date) i.e 12th September, 2020 may cast their vote electronically.

through ballot at the venue of the meeting. However, in case of vote already casted through remote e-voting, any further voting at venue through ballot shall be treated as invalid and voting through remote e-voting shall prevail. M/s. Rateria & Associates, Practicing Company Secretary, Kolkata has been appointed as

The shareholders attending the meeting physically or through proxy may cast their vote

the Scrutinizer for the e-voting and voting by ballot process in a fair and transparent

For any grievance in the matter of e-voting, the undersigned may be contacted by e-mail at info@anubhavinfrastructure.com or over phone at 91. 82320 13440.

Place : Howrah Date : August 19, 2020

Sweta Jain (Company Secretary)

KMF Builders & Developers Ltd.

Read, Office:- Flat No. 508. Golf Manor, NAL Wind Tunnel Road. Murgeshpalya, Bangalore-560017, Ph:-25238007, 41486142-43 CIN: L45203KA1995PLC017422 www.kmfbuilders.com

PUBLIC NOTICE FOR KIND ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS

Ministry of Corporate Affairs General Circular No. 14 / 2020 dated April 8, 2020, General Circular No.17 / 2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20 / 2020 dated May 5, 2020 issued by the and SEBI vide Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CI R/P/ 2020 / 79 dated May 12, 2020 have granted exemption from dispatching physical copies Notices and annual report to shareholders and also allowed conducting Annual General Meetings (AGM) through electronic mode during the year 2020 in view of COVID-19 pandemic.

UPDATING EMAIL ADDRESSES, MOBILE NUMBER & BANK MANDATE OF SHAREHOLDERS

We hereby request all the shareholders to update their Email IDs for supply of Annua Reports, Notice of AGM and other communications from the Company. Further, updated Bank details will enable electronic credit of dividends paid by the Company from time to time without any delay and banking hassles for shareholders.

Kindly note that no physical copy of Annual Report 2019-20 will be sent to the members

Shareholdings holding shares in dematerialized form are requested to approach their respective Depository Participants for updating the Email address, Bank Mandates, Shareholders holding shares in physical form are requested to convert their holdings in

demat form as transfer of shares in physical form has been prohibited by the SEBI. Further, they are also requested to register/ update their (i) Email IDs and (ii) Bank mandate with the Registrar and Share Transfer Agent - Alankit Assignments Ltd/ the Company by furnishing following information:

| S. No. | Particulars | Details |
|--------|---|---------|
| 1 | Name | |
| 2 | Folio No. | |
| 3 | Email ID | |
| 4 | Original /scanned copy of cancelled Cheque or Pass book signed by Bank Manager with IFSC & MICR No. | |

Above details along with requisite documents can be sent to Shri J. K. Singla Alankit Assignments Ltd. – RTA at email ID: iksingla@alankit.com or Ms. Privanka Behl. Company Secretary at email ID: Privanka@kmfbuilders.com / kmfbuilders95@gmail.com Ph: 01142541234

Date: 19.08.2020 Place: New Delhi

K

MF

For KMF Builders and Developers Limited Sd/- Privanka Behl Company secretary & Compliance Officer

SCHEDULE II FORM B PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy (Liquidation Process) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF PARIVARTAN BUILDETCH PRIVATE LIMITED

| 1. | Name of Corporate Debtor | PARIVARTAN BUILDTECH PRIVATE LIMITED |
|----|---|---|
| 2. | Date of Incorporation of Corporate Debtor | 14/11/2013 |
| 3. | Authority under which Corporate Debtor is Incorporated/Registered | REGISTRAR OF COMPANIES-DELHI |
| 4. | Corporate Identity Number of Corporate Debtor | U45204DL2013PTC260321 |
| 5. | Address of the Registered Office and Principal Office (if any) of Corporate Debtor | Registered Office: Plot No. 96, S/Floor, Kh No. 13/4, Village- Pochanpur, Sai Enclave, Sec-23, Dwarka New Delhi New Delhi Di 110077. Corporate Office: Plot No. 902, Sector 51, Gurugram, Haryana 122002 |
| 6. | Date of closure of Insolvency Resolution Process | 16.08.2020 |
| 7. | Liquidation commencement date of Corporate Debtor | 17.08.2020 (By Order of the Hon'ble NCLT, New Delhi Bench II in C.P. (IB)-299(ND)/2019) (A copy of the same was received by the liquidator on 18.08.2020) |
| 8. | Name and Registration Number of Insolvency Professional Acting As Liquidator | Ms. Deepika Bhugra Prasad IBBI/IPA-003/IP-N000110/2017-2018/11186 |
| 9. | Address And e-mail of the liquidator, as registered With Board | |
| 10 | Address and e-mail to be used for correspondence with the Liquidator | |
| 11 | Last date for submission of Claims | 16.09.2020 |

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench-II, Delhi has ordered the commencement of liquidation of Parivartan Buildtech Private Limited on 17* August, 2020 (A copy of same was received by the liquidator on 18.08.2020) under Section 33 of the Insolvency & Bankruptcy Code, 2016. The Stakeholders of Parivartan Buildtech Private Limited are hereby called upon to submit a proof of

their claims or update their claims submitted during CIRP, on or before 16th September, 2020, to the Liquidator at the address mentioned against item 10. The Financial Creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other Stakeholders

may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means. The prescribed forms may be downloaded from the following link: http://ibbi.gov.in/downloadform.html

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Mrs. Deepika Bhugra Prasad

(32,372,685)

Date: 19th August, 2020 Place: New Delhi

For Anubhav Infrastructure Limited

SEPARATE STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

By Order of the Board

Reg No. IBBI/IPA-003/IP-N000110/2017-2018/11186

Wall Street Exchange Centre LLC


| For the year ended 31 December 2019 | | | |
|---|-------|--------------------------|---------------|
| | | 2019 | 2018 |
| | Notes | AED | AED |
| INCOME | | | |
| Gain on currency exchange | | 29,753,395 | 53,881,566 |
| Unrealised gain on fair value of derivative financial instruments | | 150,429 | 93,659 |
| Commission income (net) | 4 | 17,571,142 | 26,668,602 |
| Other income | 4 5 | 10,913,232 | 4,926,741 |
| TOTAL INCOME | | 58,388,198 | 85,570,568 |
| EXPENDITURE | | | en auditoria |
| Staff salaries and benefits | | (40,524,156) | (49,227,578) |
| General and administrative expenses | 6 | (41,951,564) | (50,038,425) |
| Provision for expected credit losses, net | | (644,499) | (2,168,692) |
| Finance cost | | (7,640,664) | (5,627,604) |
| Provision for impairment of a subsidiary | 26 | | (2,378,046) |
| TOTAL EXPENDITURE | | (90,760,883) | (109,440,345) |
| LOSS FOR THE YEAR | | (32,372,685) | (23,869,777) |
| Other comprehensive income | | | |
| | | The second second second | - |

TOTAL COMPREHENSIVE LOSS

| SEPARATE STATEMENT OF FINANCIAL PO As at 31 December 2019 | SITION | | |
|---|--------|--------------|-------------|
| | | 2019 | 2018 |
| | Notes | AED | AED |
| ASSETS | | | 210 207 214 |
| Bank halunces and cash | 7 | 245,751,784 | 310,203,916 |
| Due from correspondents, exchange houses and customers | 8 | 1,139,838 | 18,067,169 |
| Due from related parties | 18 | 28,632,193 | 51,337,153 |
| Prepayments and other assets | 9 | 22,876,376 | 21,441,292 |
| Investment in subsidiaries | 10 | 3,358,539 | 3,368,414 |
| Right of use assets | 11 | 5,848,967 | 4 202 006 |
| Property and equipment | 12 | 3,338,478 | 4,787,006 |
| | | 310,946,175 | 409,204,950 |
| Assets held for disposal | 26 | 48,476 | 65,360 |
| TOTAL ASSETS | | 310,994,651 | 409,270,310 |
| EQUITY AND LIABILITIES | | | |
| EQUITY | | | |
| Share capital | 13 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| Statutory reserve | 14 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| Capital reserve | 14 | 2,611,969 | 2,611,969 |
| Accumulated losses | | (46,517,458) | (14,035,943 |
| TOTAL EQUITY | | 116,094,511 | 148,576,026 |
| Due to banks | 15 | 33,366,640 | 91,916,997 |
| Due to correspondents, exchange houses and customers | 16 | 15,334,389 | 27,735,051 |
| Due to related purty | 18 | 2,888,348 | |
| Accrued expense and other liabilities | 17 | 23,975,553 | 20,729,907 |
| Lease liability | 11 | 4,837,441 | |
| Employees' end of service benefits | 19 | 8,936,833 | 14,742,698 |
| Loan from a related party | 18 | 100,400,000 | 100,400,000 |
| | | 189,739,284 | 255,524,653 |
| Liabilities directly associated with assets held for disposal | 26 | 5,160,936 | 5,169,631 |
| TOTAL LIABILITIES | | 194,900,140 | 260,694,284 |
| | | 310 994 651 | 409 270 310 |



TOTAL EQUITY AND LIABILITIES



310,994,651

409,270,310





Corporate Identity Number (CIN): L74999DL1991PLC042749
Registered Office: 1105, Kailash Building, 11th Ploor

26, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001 Telephone No.: +91,11.23357940-45 Website: www.icra.in Email ID: investors@icraindia.com NOTICE

Notice is hereby given, pursuant to Regulations 29 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of ICRA Limited (the "Company") is scheduled to be held or Thursday, August 27, 2020, inter afia, to consider and approve the unaudited financial results standalone and consolidated) of the Company for the first quarter ended June 30, 2020. The above information is available on the website of the Company (www.icra.in), the BSE Limited

(S. Shakeh Rahman) Date : August 19, 2020 Company Secretary & Compliance Officer

(www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LIMITED SHRIRAM CIN: L65191TN1979PLC007874

Regd. Office: 14A, South Phase, Industrial Estate, Guindy, Chennai-600032, Tamil Nadu, India. Tel: +91 44 4852 4666 Fax :+91 44 4852 5666 Website: www.stfc.in Email id: customersupport@stfc.in

NOTICE is hereby given to all Shareholders, Debentureholders, Fixed Deposit holders, Customers, Business Associates, Stakeholders and all persons concerned and Members of the public that the Board of Directors of the Company at their meeting held today have passed the resolution for shifting of the Registered office of the Company from the premises at Mookambika Complex, 3rd Floor, No.4, Lady Desika Road, Mylapore, Chennai – 600 004 to the new premises at 14A. South Phase, Industrial Estate. Guindy. Chennai - 600 032 within the local limits of City with

TO WHOMESOEVER IT MAY CONCERN

Telephone and Fax Number. For SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LIMITED

Umesh Revankar

immediate effect. Please take note of the same and also the contact

Place: Chennai Date: August 19, 2020

Managing Director & CEO (DIN: 00141189)



CENTRAL DEPOSITORY SERVICES (INDIA) LIMITED CIN: L67120MH1997PLC112443

Regd. Office: Marathon Futurex, A Wing, 25th Floor, Mafatlal Mills Compound N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400 013. Tel: +91 22 2305 8640/8624/8639/8642/8663 Website: www.cdslindia.com Email ID: agm2020@cdslindia.com

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF 22" ANNUAL GENERAL MEETING AND RECORD DATE FOR DIVIDEND

- NOTICE is hereby given that the 22" Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on September 15, 2020 at 3:30 p.m.(IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the notice of the AGM in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
- In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for FY 2019-2020 has been sent on August 19, 2020 to those shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). Shareholders holding shares in dematerialized mode, are requested to register/update their email addresses and mobile numbers with the Company through their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Link Intime Private Limited at rnt.helpdesk@linkintime.co.in
- The Annual Report for the financial year 2019-20 including the Notice is available on the website of the Company https://www.cdslindia.com, website of the Stock Exchange i.e. National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com, the weblink of KFin Technologies Private Limited ("KFin") https://evoting.karvy.com/ public/Downloads.aspx and on the website of Linkintime India Private Limited https://www.linkintime.co.in/website/GoGreen/2020/AGM/ Central_Depository_Services_Ltd/CDSL_Annual_Report.pdf The Company is providing to its members facility to exercise their right to
- vote on resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means ("e-Voting"). Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ("remote voting"). For this purpose, the Company has engaged the services of KFin as the Agency to provide e-Voting facility. Detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of the AGM.
- The communication relating to remote e-Voting inter alia containing User ID and password, along with a copy of the Notice convening the AGM, has been emailed to the Members.
- The remote e-Voting facility shall commence on Saturday, September 12, 2020 from 09:00 a.m. (IST) and ends on Monday, September14, 2020 at 05:00 p.m. (IST) and thereafter the remote e-Voting module shall be disabled by KFin and members will not be allowed to vote electronically beyond the aforementioned time line. Once the vote is cast by a member through remote e-Voting, the same cannot be changed subsequently.
- Shareholders of the Company holding shares either in physical form or in Demat form and whose name appears in the Register of Members . Beneficial Owners, as on the cut-off date, September 8, 2020 shall only be entitled to avail the facility of remote e-Voting/voting during the

AGM (e-voting). Manner of casting vote through remote e-voting/e-voting:

- a) The Members are requested to note that the Company is pleased to provide a two-way Video Conferencing Facility (VC) to view the live streaming of the proceedings of the AGM and facilitate participation of Members at the AGM through VC or asking their questions through a Chatbox facility. The Members will be able to view the proceedings on https://emeetings.kfintech.com
- Members may use this facility by using the same login credentials as provided for remote e-Voting. Members on the day of the AGM will login through their user ID and password on e-Voting website: https://emeetings.kfintech.com. The link for the AGM will be available in Member login where the "Event" and the "Name of the Company" can be selected. After clicking this link, the Member will be able to view the webcasting of the AGM proceedings. The VC Facility will be available on September 15, 2020 from 03:15 p.m. (IST) onwards till the conclusion of the AGM.
- c) Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and the cut-off date i.e. September 08, 2020 may obtain the User ID and password by sending e-mail request to the Company on agm2020@cdslindia.com. Such person shall only be entitled to attend the meeting. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the AGM which is available on Company's website, NSE website and KFin's website. If the member is already registered with KFin for e-Voting, he can use his existing User ID and password for casting vote through remote e-voting

Record date for Dividend and payment thereof:

- a) The Company has fixed Tuesday, September 08, 2020 as the "Record Date" for the purpose of determining the eligibility of the members to receive dividend for the financial year 2019-20. Dividend, if declared at the meeting, will be paid or within a period of 30 days from the conclusion of the AGM. The warrants shall be dispatched post resuming of postal services.
- b) Payment of dividend will be subject to deduction of tax at source (TDS) at applicable rates. For more details, please refer to the Notes to the Notice of AGM

10. Manner of registering mandate for receiving Dividend: Shareholders are requested to register/update their complete bank

- a) with their Depository Participant(s) with whom they maintain their demat accounts, if shares are held in dematerialised mode by submitting the requisite documents. Details in a form prescribed by your Depository Participant may also be required to be
- b) M/s Link Intime Private Limited ("RTA") by emailing at rnt.helpdesk@linkintime.co.inif shares are held in physical mode, by submitting:
 - scanned copy of the signed request letter which shall contain member's name, folio number, bank details (Bank account number, Bank and Branch Name and address, IFSC, MICR
 - self-attested copy of the PAN card and cancelled cheque leaf.
- 11. In case of any queries/grievances, you may refer the Frequently Asked
- Questions (FAQs) for Members and e-voting User Manual available at the 'download' section of https://evoting.karvy.com or call KFin on 1800 345 4001 (toll free).

By Order of the Board of Directors

Place : Mumbai Date : August 20, 2020

Amita Paunikar VP - Legal & Company Secretary

SML ISUZU LIMITED

Regd. Office : Village Asron, Diett. Shahid Bhugat Singh Nagar (Newsmahahr) 144 523. Phone: (91)-1881-270255, Fax: (91)1881-270223, CIN: L56101PB1983PL000551E. Website address: www.smilisuzu.com Emzil : Investors@smilisuzu.com

NOTICE Modice is heraby given that share certificato Nos, as per detail given below has been reported lost or misplaced.

| Folio na. | Name of shareholder | Share Certificate no. | Distinctive res. | No. of ahares |
|-----------|--------------------------|------------------------------|--|----------------------|
| 50209 | LAUT DWWDRAKANT SANCHETI | 13638 | 64540Q1-43T0 | 50 |
| RESEA | YOGESHIB SHAH | 6333 6335 6336 6337 | 6255721-6770 6260621-6870 6260621-6970 6260621-6970 | 50 50 50 50 |

Any person who has a claim or interest in the above shares and having any objection to the issue of duplicate share certificate in fieu of the above is required to notify the same to the company at its registered office within 15 days from the date of this notice indicating the nature of the claim or lien or interest of his objection to the said lesies of duplicate share certificate through an afficant duly attested. Else the company will proceed to issue duplicate share certificate without extertaining any islains'

damage whatsoever it may be.

For SML ISUZU LIMITED (PARVESH MADAM) Place: Chandigarh Company Secretary Date: 18.03.2223

Inspirisys Solutions Limited

(Formerly Accel Frontline Limited) CIN: L30006TN1995PLC031736

Regd. Office: First Floor, Dowlath Towers, New Door Nos. 57, 59, 61 & 63, Taylors Road, Kilpauk, Chennai - 600 010. Phone No. 044 4225 2000.

NOTICE

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of the company will be held on Wednesday, 16th September, 2020 at 03:00 PM through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM).

In view of the massive outbreak of the COVID-19 pandemic, social distancing is a norm to be followed and pursuant to the Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, Circular No.17/2020 dated 13th April, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs followed by Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, physical attendance of the Members to the AGM venue is not required and annual general meeting (AGM) be held through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM). Hence, Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only.

In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated 12th May, 2020, Notice of the AGM along with the Annual Report 2019-2020 is being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories. The Notice and the Annual Report of the Company is uploaded on the Company's website www.inspirisys.com. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and the AGM Notice is also available on the website of NSDL (agency for providing the VC / OAVM facility, Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) i.e. www.evoting.nsdl.com. For any communication, the shareholders may also send requests to the company's email id: sundaramurthy.s@inspirisys.com

Procedure for registration of e-mail address by shareholders:

Members holding shares in Physical mode, who have not registered their e-mail address with the company, may get their e-mail addresses registered with Link Intime India Pvt. Ltd. (Registrar & Share Transfer Agent - RTA) by clicking on https://linkintime.co.in/ emailreg/email register.html in the web site www.linkintime.co.in at the Investor Services tab by choosing the E mail / Bank Registration heading. The members are requested to provide details such as Name, Folio Number, Certificate number, PAN, mobile number and e mail id and also upload the image of share certificate in PDF or JPEG format. In case of any query, a member may send an e-mail to RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Members holding shares in Demat Form and who have not registered their e-mail addresses may temporarily get their e-mail addresses registered with RTA by clicking the link: https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html in their web site www.linkintime.co.in at the Investor Services tab by choosing the E mail Registration heading. The members are requested to provide details such as Name, DPID, Client ID/ PAN, mobile number and e-mail id. In case of any query, a member may send an e-mail to RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in. For permanent registration of email address for members holding shares in Demat mode, the Members are requested to register their e-mail address, in respect of demat holdings with the respective Depository Participant (DP).

Also, the company has opted for sending SMS service of our RTA, Link Intime India Pvt. Ltd. for registration of email address/bank details in which RTA have sent SMS text to the members containing the link for registering the email address/Bank details.

Instructions for Voting through electronic means:

The Members are hereby informed that pursuant to Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, substituted by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and MCA Circulars dated 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 5th May, 2020, the Company has offered remote e-voting facility for transacting the business through National Securities Depository Limited (NSDL) to enable the members to cast their votes electronically.

Members whose names appear on the Register of Members/Registrar of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date for e-voting, i.e. Wednesday, 9th September, 2020 shall be entitled to avail the facility of remote evoting/voting at the AGM. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member after dispatch of the Notice, but before the cut-off date for voting, i.e Wednesday, 9th September, 2020, may obtain the User ID and Password by either sending an e-mail request to evoting@nsdl.co.in or calling on Toll Free No.

Process for those shareholders who are holding shares in physical form or who have not registered their email ids can cast the vote through remote e-voting or through e-voting during the AGM.

In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to sundaramurthy.s@inspirisys.com. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card). AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to sundaramurthy.s@inspirisys.com.

The remote e-voting commences on Saturday, 12th September, 2020 (9:00 A.M.) and ends on Tuesday, 15th September, 2020 Members will not be able to cast their vote through remote e-voting

beyond the said date and time and the remote e-voting module shall be disabled for voting by NSDL thereafter. Additionally, the facility for e-voting shall also be made available at

the time of AGM for Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right through e-voting during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting and e-voting at the AGM are provided in the Notice.

Mr. M. Alagar, Practicing Company Secretary (Member ship No. F7488 and CoP No. 8196) of M/s. M. Alagar & Associates, Practicing Company Secretaries, Chennai has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be

placed on the Company's website www.inspirisys.com and website

of NSDL https://www.evoting.nsdl.com/ and simultaneously communicated to BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited, (NSE) where the Company's shares are listed, not later than 48 hours after the conclusion of AGM. The documents will be available for inspection by the members in

electronic mode. Members can send an e-mail to

sundaramurthy.s@inspirisys.com requesting for inspection. Notice is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, that the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Thursday, 10th September, 2020 to Wednesday, 16th September, 2020 (both

Any query/grievance in relation to voting by electronic means can be addressed to NSDL, Ms. Pallavi Mhatre, (Manager), NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013. Email: evoting@nsdl.co.in, Tel: 1800 222 990/ 91 22 2499 4200 91 22 24994545.

days inclusive) for Annual General Meeting.

Place : Chennai

New Delhi

Date : 20.08.2020

By the order of the Board For Inspirisys Solutions Limited (Formerly Accel Frontline Limited) S. Sundaramurthy Company Secretary

financialexp.epapr.in





केन्द्रीय भण्डारण निगम (भारत सरकार का उपक्रम) निगमित कार्यालयः 4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्तिमार्ग होजखास, नई दिल्ली-110016, जन – जन के लिए भंडारण



रूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण

केन्द्रीय भंडारण निगम अपने वेअरहाउसों में बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) आधार फ कोल्ड स्टोरेज सुविधा/फूड प्रोसेसिंग यूनिट/पैकेजिंग यूनिट, विकसित करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) आमंत्रित करता है। इक्छुक पार्टियां ईओआई दस्तावेज के पूर्ण विवरण, नियम एवं शतौँ के लिए हमारी वेबसाइट <u>www.cewacor.nic.in</u> देख सकते हैं। समूह महाप्रबंधक (एसपी एंड सी), केन्द्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली



भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. (भारत सरका (A Govt. of Ind (एक नवर

| | . 4-1. (| | | |
|---|--|--|--|--|
| आईसीडी / कानपुर में दो वाणिज्यिक वाहनों (एक वातानुकूलित एवं एक गैर वातानुकूलित हैचबैक) को किराये पर लेने हेतु एक बोली में | | | | |
| केवल ई-टेंडरिंग मोड के माध्यम से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। | | | | |
| निविदा सं. | CON/Area-I/TC/Taxi/Kanpur/2020 | | | |
| कार्य का नाम | आईसीडी / कानपुर में दो वाणिज्यिक वाहनों (हैचबैक) को किराये पर लेना | | | |
| अनुमानित लागत | ₹. 30,47,058/- | | | |
| अनुबंध की अवधि | 2+1 वर्ष | | | |
| धरोहर जमा राशि [*] | रु. 61,000/- ई-भुगतान के माध्यम से | | | |
| दस्तावेज की कीमत* | रु. 1000/- सभी करों व प्रभारों सहित ई—भुगतान के माध्यम से | | | |
| निविदा प्रक्रिया शुल्क* | रु. 1,798/- सभी करों व प्रभारों सहित (अप्रतिदेय) ई—भुगतान के माध्यम से | | | |
| निविदा बिक्री की तिथि (ऑनलाइन) | 20.08.2020 को 15:00 बजे से (03.09.2020 को 16:00 बजे तक) | | | |
| निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय | 04.09.2020 को 15:00 बजे तक | | | |
| निविदा खुलने की तिथि एवं समय | 07.09.2020 को 15:30 बजे | | | |

*ई-मुगतान के माध्यम से। पात्रता मापदण्ड व अन्य विवरण हेतु कृपया www.concorindia.com या eprocure.gov.in www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉग ऑन करें। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें। कॉनव के पास विना कोर्ट कारण बनाम किसी अध्यक्ष विभिन्नाओं में के नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें। कॉनव के पास विना कोर्ट कारण बनाम किसी अध्यक्ष विभिन्नाओं में पास बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सरक्षित है। सम्पर्ण विवरण समूह महाप्रबंधक (सी एण्ड ओ)/वाणिज्य एवं प्रशासन/क्षेत्र-। (उत्तर

PUBLIC NOTICE

'फॉर्म नं. आईएनसी–26

(कम्पनी (निगमन) विनियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार) कम्पनी के पंजीकृत पते का एक से दूसरे राज्य में स्थानांतरण के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु विज्ञापन

केंद्र सरकार के समक्ष क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कम्पनी (निगमन) विनियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

लीवगार्ड एनर्जी टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U51909DL2014FTC265518) के मामले में

पंजीकृत पता : डब्ल्यूजैड 106 / 101, रजौरी गार्डन एक्स., दिल्ली–110027

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कम्पनी अपना पंजीकृत पता "एनसीटी क्षेत्र दिल्ली से हरियाणा राज्य'' स्थानांतरित करने के उददेश्य से मंगलवार 4 अगस्त 2020 को आयोजित विशेष आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन की पुष्टि हेतु कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार के समक्ष आवेदन करने का प्रस्ताव

कम्पनी के पंजीकृत पते में प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो तो वह अपनी आपत्तियां इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अंदर निवेशक शिकायत पत्र के माध्यम से एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर दर्ज कर सकता है या किसी के माध्यम से या पंजीकृत डाक से क्षेत्रीय निदेशक को इस पते पर भेज सकता है – बी–2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली—110003 साथ ही, एक हलफनामा देना होगा जिसमें उसके हित और आपत्तियों के आधारों का उल्लेख हो। इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी के नीचे लिखे पंजीकृत पते पर भी भेजना होगा

डब्ल्यूजैड 106 / 101, रजौरी गार्डन एक्स., नई दिल्ली–110027

आवेदक के लिए और उसकी ओर कृते लीवगार्ड एनर्जी टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड

परेश चन्द्र प्रधान डायरेक्टर DIN: 02259057

तिथि : 20 अगस्त 2020 स्थान : नई दिल्ली

^{एनशुभूश} एन टी पी सी लिमिटेड

सीआईएनः L40101DL1975GOI007966

पंजीकृत कार्यालयः एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लेक्स, ७, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोधी रोड, नई दिल्ली — 110 003, टेलीफोन नं: 011—24360959, फैक्स[:] 011—2436024 ईमेलः csntpc@ntpc.co.in, वेबसाइट: www.ntpc.co.in <u>सूचना</u>

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कोविड — 19 महामारी को देखते हुए 5 मई, 2020 के दिशा-निर्देश परिपत्र द्वारा कंपनियों को वर्ष 2020 के दौरान अपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल (ओएवीएम) माध्यमों से आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने पूर्वोक्त परिपत्र और सेबी ने 12 मई, 2020 के दिशा-निर्देश परिपत्र के द्वारा सभी शेयरधारकों को एजीएम की सूचना, बोर्ड रिपोर्ट, वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेज आदि के साथ वित्तीय वर्ष 2019–20 की वार्षिक रिपोर्ट केवल ई–मेल द्वारा भेजने की अनुमति दी है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं पूर्वोक्त परिपत्रों के अनुपालन में एनटीपीसी लिमिटेड की 44वीं एजीएम गुरुवार, 24 सितंबर, 2020 को प्रातः 10:30 बजे वीसी / अन्य ओएवीएम सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी और 44वीं एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट केवल उन शेयरधारकों को ईमेल द्वारा भेजी जाएगी, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स के पास पंजीकृत है। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.ntpc.co.in पर तथा स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध कराई जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 एवं कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के अनुसार, 44वीं एजीएम में विचाराधीन प्रस्तावों के लिए रिमोटईवोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान कराने हेतु ये सेवाएं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) से ली है। वे शेयरधारक जो भौतिक रूप से अपने शेयर रखते हैं या जिन्होंने अपने ई-मेल एड्रेस को पंजीकृत नहीं कराया है तथा एजीएम में भाग लेना चाहते हैं या रिमोटईवोटिंग या ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालना चाहते हैं. वे अपने क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल कर ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर जाकर लॉग ऑन कर सकते हैं। सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि कंपनी / स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाने वाली एजीएम के नोटिस में निहित निर्देशों को पढ़ें।

ई—मेल आईडी तथा बैंक विवरण पंजीकृत / अपडेट करने का तरीका : जिन शेयरधारकों ने अपनी ई–मेल आईडी तथा बैंक खाते का विवरण पंजीकृत नहीं करवाया

| है। उनसे अनुराध किया जाती है कि व निम्नालाखत तराक से पंजाकृत करे। | | | | |
|---|---|--|--|--|
| भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए | कृपया निम्नलिखित विवरणों के साथ कंपनी के आरटीए को पोस्ट के माध्यम से निम्न पते मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, अलंकित हाउस, 4 ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली—110055 पर एक अनुरोध पत्र भेजें या निम्नलिखित विवरणा/दस्तावेजों को ईमेल आईडी alankit_ntpc@alankit.com के माध्यम से भेजें। | | | |
| | ई–मेल आईडी अपडेट करने के लिए | बैंक खाता अपडेट करने के लिए | | |
| | फोलियो नं. शेयरधारक का नाम गेन और आधार की कॉपी (सेल्फ अटेस्टेड) (हस्ताक्षर, कंपनी / आरटीए के साथ उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर के साथ मेल खाते हो) | ई—मेल अपडेट करने के लिए आवश्यक विवरणों के अलावा, निम्नलिखित विवरण/दस्तावेज आवश्यक हैं: 1. बैंक खाते का विवरण जिसमें बैंक एकाउंट नंबर, बैंक का नाम और शाखा, एमआईसीआर कोड/ आईएफएससी कोड आदि उल्लिखित हो। 2. कैंसिल चेक | | |
| डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों | | त प्रक्रिया के अनुसार अपने डिपॉजिटरी मेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा बैंक खाते हैं। | | |

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आयक अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार या कंपनी द्वारा 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद वितरित या भूगतान किए गए लाभांश शेयरधारकों के लिए कर योग्य है। अतः कंपनी को शेयरधारकों के लाभांश का भूगतान करते समय स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित है। उपर्युक्त टीडीएस दर का निर्धारण करने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे एजीएम के नोटिस में वर्णित आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक

फॉर्म्स / दस्तावेज प्रस्तुत करें। इस संबंध में अन्य किसी भी प्रकार की सहायता के लिए शेयरधारक उपरोक्त ई-मेल / पते पर, आरटीए या कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

दिनांक : 19.08.2020 स्थान : नई दिल्ली विद्युत क्षेत्र में अञ्चर्ण

नंदिनी सरकार कंपनी सचिव

एनटीपीसी लिमिटेड के लिए

मणिपुर के पांच पूर्व कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 19 अगस्त।

भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बुधवार को मणिपुर के पांच पूर्व कांग्रेस विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया। ये पांच विधायक उन आठ कांग्रेसी विधायकों में शामिल थे जिन्होंने मणिपुर विधानसभा में पिछले दिनों पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए विश्वास मत के दौरान अनुपस्थित रहकर अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा नीत एन बीरेन सिंह सरकार की जीत की राह आसान की थी। बाद में इन सभी ने

कांग्रेस और विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की उपस्थिति में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैजयंत जय पांडा ने सभी पांचों पूर्व विधायकों को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर पूर्वोत्तर मामलों के भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार माधव ने कांग्रेस पर बीरेन सिंह सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया और दावा किया कि अब उनकी सरकार स्थिर है। उन्होंने कहा कि ये सरकार स्थायी रूप से चलेगी। डेढ़ साल का बचा कार्यकाल तो पूरा करेगी ही, साढ़े छह साल हमारी सरकार चलेगी।

Office Address

CIN:

ne JCOs/NCOs mess run by HQ CWE (U) Delt antt-10 under HQ Chief Engineer Delhi Zor vites sealed quotations from reputed and eligib

wites seated quotations from reputed and eligib ontractors, firms/agencies for the aforesaid Annu-ontract for 11 months latest by 11 Septembe 20. The details of scope of work/services to b ovided and menu details may be collected b terested paries from HQ CWE (U) office durin eworking hours.

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट

1170101DI 1997PTC088462

(अंतरक कंपनी) जिसका पंजीकृत कार्यालय एच

340-एल, धरातल, न्यू राजिंद्र, नगर, नई दिल्ली

दिलबाग रियल एस्टेट डवेल्पर्स प्राईवेट लिमिटेड

ामान्य जनता को एतदुद्वारा सुचना दी जाती है कि

कंपनी ने ऊपरकथित नियमों के साथ पठित कंपनीज

अधिनियम, 2013 की धारा 233 के अधीन केन्द्र

ारकार (शक्ति क्षेत्रीय निदेशक को प्रत्यायोजित) को

आवेदन करने की इच्छुक है तथा ऐसे विलय को

गागू करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए

वीरवार. 13 अगस्त. 2020 को आयोजित

असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव

. हपनी के प्रस्तावित बदलाव/स्थिति द्वारा प्रभावि

होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस सूचना के

प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर संबंधित

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय

तल. पर्यावरण भवन. सीजीओ कम्प्लैक्स. नर्ड

दिल्ली-110003 को विरोध के कारण तथा हित की

प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्थित

आपत्तियों को पंजीकृत डाक द्वारा भेजें या डिलीव

करें और इसकी प्रति आवेदक अंतरिती कंपनी के

नीचे वर्णित पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय प

नेवासी-एच-340-एल, धरातल, न्यू राजिंद्र, नगर

हिते एवं कृते आवेदक

अरूण कुमार अरोड़ा

DIN: 00588724

दिलबाग प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड

(अंतरिती

(निदेशक

देलबाग प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड

भेजनी है:

देल्ली-110060

दिनांक: 19.08.2020

स्थानः नई दिल्ली

h अनुसार विलय करने की इच्छुक है।

दिलबाग पोपर्टीज पाईवेट लिमिटेड

ICRA Limited NOTICE FOR INVITING QUOTATIONS FOR AWARD OF ANNUAL CONTRACT TO OUTSOURCE FOR PROVIDING THE CATERING SERVICE FOR MESS AND MAINTENANCE OF MESS

orate Identity Number (CIN): L74999DL1991PLC042749
Registered Office: 1105, Kailash Building, 11th Floor
26, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001
Telephone No.: +91.11.23357940-45
Vebsite: www.icra.in Email ID: investors@icraindia.com

NOTICE

Notice is hereby given, pursuant to Regulations 29 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of ICRA Limited (the "Company") is scheduled to be held or Thursday, August 27, 2020, inter alia, to consider and approve the unaudited financial results (standalone and consolidated) of the Company for the first quarter ended June 30, 2020. The above information is available on the website of the Company (www.icra.in), the BSE Limite (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

Place: Gurugram Date: August 19, 2020

Company Secretary & Compliance Officer

आरतीय स्टेंट बैंक तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा-। प्रथम तल, 23, नजफगढ़ रोड़, नई दिल्ली—110015, फोनः 011-25419177, 25412977, ईमेल : sbi.05169@sbi.co

नियम-8 (1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के अन्तर्गत कब्जा सूचना जबिक अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अधीन भारतीय स्टेट बैंक, का प्राधिकत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के साथ पठित धारा १३(१२) के नियम ३ के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार **श्री गौरी शंकर झा एवं अन्य और निम्नलिखित** कर्जदार / गारंटर: (1) श्री गौरी शंकर झा, (उधारकर्ता), 308, द्वितीय तल, श्री राम रेजीडेंसी, प्लॉट नं. 1, अहिंसा खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यू.पी., <u>और:</u> श्रीमती सरोज झा, (उधारकर्ता) 308, द्वितीय तल, श्री राम रेजीडेंसी, प्लॉट नं. 1, अहिंसा खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यू.पी., श्री सौरव झा, (उधारकर्ता) 308, द्वितीय तल, श्री राम रेजीडेंसी, प्लॉट न ।, अहिंसा खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यू.पी., (2) श्री सी.बी. झा (गारंटर) 308, द्वितीय तल, श्री राम रेजीडेंसी, प्लॉट नं. 1, अहिंसा खेंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यू.पी., (3) श्री जय प्रकाश शर्मा, (गारंटर), ए–267/31, सेक्टर–31, नोएडा, यू.पी. (तदोपरान्त कर्जदार और गारंटरों को संयुक्त रुप से "कर्जदार" कहा गया है) को एक मांग नोटिस दिनांक 08.08.2016 को जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि रू 25,96,466/- (रू. पच्चीस लाख छियान्वे हजार चार सौ छियासठ मात्र) दिनांक 07.08.2016 तक और साथ में संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकरिमक खर्चे लागत, प्रभार इत्यादि सहित उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भूगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वार कर्जदार / गारटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा. उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 4 उक्त नियमो के (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा 14.08.2020 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार /पार्टनर /गारंटर तथा जनसाधारण को एतददारा उक्त संपत्ति वं साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन भारतीय स्टेट बैंक, के प्रभार वास्ते कुल राशि रू **25,96,466/- (रू. पच्चीस लाख छियान्वे** हजार चार सौ छियासठ मात्र) दिनांक 07.08.2016 तक और साथ में संविदात्मक दर पर **भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे लागत, प्रभार इत्यादि सहित** के अधीन होगा।

कर्जदारों का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के संशोधित प्रावधानों वं प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक नीलामी द्वारा, जनता से कोटेशन निविदा आमंत्रण द्वारा, निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना व प्रकाशन की तिथि तक ही आप बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ अपनी सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान कर सकते है। कृप्या ध्यान रहे कि यदि आप सार्वजनिक सूचना द्वारा, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों. चार्जैज तथा खर्चें के साथ अपनी सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं करते है तो आप प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे।

अचल संपत्तियों का विवरण

फ्लैट नं. 308, द्वितीय तल, 2 बेडरूम सेट, जिसका सुपर क्षेत्रफल 1175 वर्ग फीट (अर्थात 109.17 वर्ग मी.) श्री राम रेजीडेंसी, फ्री होल्ड ग्रुप हाउँसिंग प्लॉट नं. 1, अंहिसा खंड–।।, जोकि रिहायशी कॉलोनी, इन्द्रापुरम, गाजियाबाँद में स्थित, बहु—मंजिला इमारत में निर्मित फ्लैट, यह सम्पत्ति श्रीमती सरोज झा, श्री गौरी शंकर झा और श्री सौरव झा के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में — प्लॉट नं. 3, दक्षिण में — 18मी. चौडी रोड, पूरब में — प्लॉट नं. 2, पश्चिम में — 12 मी. चौडी रोड

दिनांक : 14-08-2020 स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

CAREER POINT LIMITED

Registered Office: CP Tower 1, Road No. 1, IPIA, Kota, Raiasthan 324005 CIN: L72200RJ2000PLC016272, Phone: 0744-3040000, Fax: 0744-3040050 Website: www.cpil.in, Email: investors@cpil.in

NOTICE

Notice is hereby given that meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 28th August, 2020, at its Registered Office, to consider various items inter alia Standalone & Consolidated Unaudited Financial Results of the Company for the guarter ended 30th June, 2020. Pursuant to this, the Company has decided the closure of trading window till 30th August, 2020.

The said notice may be accessed on the Company's website www.cpil.in and may also be accessed on the Stock Exchange website at http://www.bseindia.com and http://www.nseindia.com.

For Career Point Limited Place: Kota (Rajasthan **Tarun Kumar Jain** GM (Corporate & Legal Affairs) & Company Secretary

UJALA CREDIT CO-OPERATIVE SOCIETY LTD. (MULTI STATE) Regd. Off.: 410, 4" Floor, C-1,2,3 PP Tower, NSP, Pitampura, Delhi-110034, Ph. 011-45595003 Website: www.ujalacredit.com; Registration no.: MSCS/CR/552/2012

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that the Ninth Annual General Meeting of genera

body of Ujala Credit Co-operative Society Limited will be held on Thursday, Seventeenth Day of September, 2020 at 4240/1, Jai Mata Market Ram Pura, Behind UCO Bank, Delhi-110034, at 11.00 AM to transact the following business: 1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statement of the

Society for the Financial Year ended March 31, 2020 and Reports of the Board of Directors and Auditors thereon. To appoint Statutory Auditor of the Society for the FY 2020-2021

3. To approve the Budget for Financial Year 2020-2021

. To approve the appropriation of profit 5. To seek approval of the long term perspective plan and the annual

6. Any other matter with the permission of the Chairman. By order of the Board of Directors

Date: 19th August, 2020 Amit Sharma, Chairman Ujala Credit Co-operative Society Limited (Multi state Place: Delhi

अनुसची II प्रपत्र ख सार्वजनिक घोषणा

[दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली. 2016 का विनियम 12] परिवर्तन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के अवधानार्थ

| 1. | कार्पोरेट देनदार का नाम | परिवर्तन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड |
|-----|--|--|
| 2. | कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि | 14/11/2013 |
| 3. | प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है | रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली |
| 4. | कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या | U45204DL2013PTC260321 |
| 5. | कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता | पंजीकृत पता : प्लॉट सं. 96, एस/फ्लोर, खस्सा नं. 13/4, ग्राम- पोचनपुर, साई एन्कलेव, संक्टर-23, क्षरका, नई दिल्ली-110077. कांपीरट कार्यालय : प्लॉट सं. 902, सेक्टर 51, गुरुग्राम, हरियाणा- 122002 |
| 6. | ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया की अन्तिम तिथि | 16.08.2020 |
| 7. | कार्पोरेट देनदार के परिसमापन के आरंभन की तिथि | 17.08.2020 (सी.बी.(आईबी)-299(एनडी)/2019 में माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली पीठ II के आदेश हाग) (इसकी एक प्रति परिसमापक को 18.08.2020 को प्राप्त हुई) |
| 8. | परिसमापक के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या | सुश्री दीपिका भुगरा प्रसाद IBBI/IPA-003/IP-N000110/2017-2018/11186 |
| 9. | बोर्ड के साथ पंजीकृत के रूप में परिसमापक का पता तथा ई-मेल | 202, सम्राट अशोक एन्कलेव, सेक्टर-18ए, प्लॉट सं. 6, हारका, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-110075 आईबीबीआई के साथ पंजीकृत ई-मेल पता : deepika.bhugra@gmail.com |
| 10. | परिसमापक के साथ होने वाले पत्राचार हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला पता तथा ई-मेल | एएए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एलएलपी ई–10ए, कैलाश कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली–110048 सम्पर्क हेतु ई–मेल पता : parivartan@aaainsolvency.com |
| 11. | दावे प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि | 16.09.2020 |

(इसकी एक प्रति परिसमापक को 18.08.2020 को प्राप्त हुई) को ऋणशोध अक्षमता एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 33 के तहत **परिवर्तन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड** के परिसमापन प्रक्रिया को प्रारम्भ करने का आदेश दिया है। एतद्वारा परिवर्तन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को मद सं. 10 के सम्मुख उल्लिखित परिसमापक के पते प सीआईआरपी के दौरान प्रस्तुत प्रमाण सहित अपने दावे का प्रमाण 16 सितम्बर, 2020 को या इससे पूर्व प्रस्तुत करने का वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अ

एतद्वारा सचित किया जाता है कि माननीय राष्टीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ-II ने 17 **अगस्त.** 2020

दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्टॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तत कर सकते हैं। निधारित प्रपत्र निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड किये जा सकते हैं : http://ibbi.gov.in/downloadform.html दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी। श्रीमती दीपिका भगरा प्रसाद

तिथि : 19 अगस्त, 2020 स्थान : नई दिल्ली

पंजीकरण सं. IBBI/IPA-003/IP-N000110/2017-2018/11186

पुनर्विचार याचिका पर विचार होने तक टले सजा पर सुनवाई : प्रशांत भूषण

नई दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा)।

न्यायपालिका के लिए अपमानजनक ट्वीट करने के कारण अवमानना के दोषी ठहराए गए कार्यकर्ता, अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से 20 अगस्त को संजा के लिए होने वाली सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया। भूषण ने कहा कि 14 अगस्त के फैसर्ल पर पुनर्विचार याचिका दायर होने तथा उस पर विचार होने तक कार्यवाही टाली

बारे में अपमानजनक ट्वीट के लिए उन्हें आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया था और कहा था कि इन्हें जनहित में न्यायपालिका के कामकाज की निष्पक्ष आलोचना नहीं कहा जा सकता है। न्यायालय ने कहा था कि

State Bank of India भारतीय स्टेट बैंक त आस्त वसूनी शाखा, तीसरी और वौथी मंजि बैंक हाउस, 18/4, आर्य समाज पेंड, करोल तंड दिल्ली–110005, फोन: 011–2875216 : 28755674 ई—मेल: sbi.51521@sbi.co.in

ामलों का मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष कंपनीज (समझौता, प्रबंधन और समायोजन) नियमों. 2016 के साथ पठित अधिनियम की धारा 233 के अंतर्गत दर्ज की गई याचिका के विषय में तेलनाग पोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड. CIN आर इमारत गाटा सख्या 99 एम (खता न. 38 माए नवोली, माखनपुर, शिकोहाबात, जिला फिरोजाबाद (र पी.) में गलत प्रकाशित हुआ है उसकी जगह प लॉट 1 – फैक्टरी मुमी एवं इमारत प्लॉट एवं मशीन्ते सहित गेट ने, 9 (खाता नं, (38) मोजा नवोर्ल माखनपुर, शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद (उ.प्र.) U70101DL1997PTC088464 (अंतरिर्त कंपनी) जिसका पंजीकृत कार्यालय एच-340-एल वरातल, न्यू राजिंद्र, नगर, नई दिल्ली-110060 देलबाग रियल एस्टेट डवेल्पर्स प्राईवेट लिमिटेड

रोजाबाद (उ.प्र.) (खाता नं. (38) मौजा नवोली, माखनपुर, शिकोहाबाव जेला फिरोजाबाद (उ.प्र.) पढा जाय। तथा बैंक व ाखा विवरण में ईमेल sbi51521@sbi.co.in काशित हुआ जो कि गलत है इसके जगह पर ईमेलः

Form No. INC-26 ursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014 Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another Before the Regional Director

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of ompanies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (

of rule 30 of the Companies (noncopration) Rules, 2014 AND the matter of RISHABH DEVELOPERS PRIVATE LIMITEC having its registered office at 147 Basant Enclave Rao Tularam Marg New Delhi, Petitioner

oposed change of the registered office of the company ay deliver either on the MCA-21 porta

r and on behalf of the Applicant te 19.08.2020

शीर्ष अदालत ने प्रशांत भूषण को न्यायपालिका के

्रभुष्धभ्यः 1 युद्धिपत्र मेगा ई—नीलामी सूचना दिनांक 15.08.2020 को फाइनेंसियल एक्सप्रेस और जनसत्ता में प्रकाशित दुआ था। जिसमें क्रःसं. 2 (श्रीमती मीना सिंह एवं श्री सत्तुल प्रताप) में बोली वृद्धि राशि रु.10,000/— क्काशित हुआ था इसके जगह रु. 20,000 पढ़े और क्र. सं. 3 (कर्जदार मैससे बाके बिहारी बजरंग पलोर सं. 3 क्रिजदार मैससे बाके बिहारी बजरंग पलोर नस) सम्पत्ति / यों का विवरण फैक्ट्री की जमीन और डमारत गाटा संख्या ९९ एम (खता नं ३८ मीज

लॉट 2 – प्लांट एवं मशीनरी सहित गेट नं. 9 (खात नं. (38) मौजा नवोली, माखनपुर, शिकोहाबाद, जिल **लॉट 3** – फैक्टरी भूमी एवं इमारत सहित गेट नं.

sbi.51521@sbi.co.in पढा जाय। अन्य नियम र्ते वही रहेंगी। देनांकः 19.08.2020 अधिकृत प्राधिकारी, एसएआरबी—। स्थानः नई दिल्ली

Northern Region, New Delhi

otice is hereby given to the General Public that the impany proposes to make application to the Centra overnment under section 13 of the Companies Act, 2013 eking confirmation of alteration of the Memorandum of seeking commination of alteration of the Memorandum of issociation of the Company in terms of the special esolution passed at the Extra ordinary general meeting, teld on 03.08.2020 to enable the company to change its legistered Office from "State of New Delhi" to "State of ny person whose interest is likely to be affected by th

www.mca.gov.in) by filing investor complaint form ause to be delivered or send by registered post of hish bipections supported by an affidiavit stating the nature iisher interest and grounds of opposition to the Region Director, Northern Region at the address B-2 Wing. 2P loor Paryavara Bhawan, C60 Complex, New 10007 away the district of the date of publication of the ce with a copy to the applicant company stered office at the address mentioned below: 7 Basant Enclave Rao Tularam Marg New Delhi

अपनी अजी में कहा है कि वे 14 अगस्त के आदेश का अध्ययन करने और इस पर उचित कानुनी सलाह के बाद पुनर्विचार याचिका दायर करना चाहते हैं। आवेदन में कहा गया है कि इस आदेश के परिणाम सांविधानिक दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण है, विशेषकर

बोलने की आजादी के अधिकार के मामले में। स्वतः संज्ञान लिए गए इस मामले में दाखिल आवेदन में कहा गया है, 'आवेदक फैसले की तारीख से 30 दिन की सीमा के भीतर इसे दाखिल करेगा क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट की नियमावली, 2013 के आदेश 43 के तहत इसका हकदार है। अतः यह अनुरोध किया जाता है कि इसके मद्देनजर सजा के लिए 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई इस न्यायालय द्वारा पुनर्विचार याचिका पर विचार किए जाने तक स्थगित की जाए। भूषण ने कहा है कि पुर्निवचार याचिका पर विचार होने तक इसकी सुनवाई स्थगित करना संविधान के अनुच्छेद 21 में नागरिक को प्राप्त स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में सार्वजनिक नीति के मद्देनजर न्याय के हित में होगा। आवेदन में यह भी कहा गया है कि अगर न्यायालय सजा के मुद्दे पर सुनवाई करता है और कोई सजा देता है तो उस पर पुनर्विचार

कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली 2014 के नियम 30 (6) (ए) के मामले में केजी टैफिक मार्केटिंग मॉल्यशन्म पाईवेट लिमिटेड

CIN: U74993DL2018PTC335854 कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकत कार्यालय सी-700 न फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110025 में है, वे - आवेदक एतदुद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है वि

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

के अनुपालन में साधारण सुचना

वह 20 अगस्त

को इस मामले

में भूषण को दी

दलीलें सुनेगा।

भूषण ने

वाली

जाने

सजा

'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से ''कर्णाटक राज्य ं' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 20 जुलाई, 2020 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) के अंतर्गत यह कंपनी क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावि

परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होत हो. वे नीचे वर्णित पते पर उसके पंजीकत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों क उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल. पर्यावरण भवन. सीजीओ कॉम्प्लैक्स. नर्ड दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं य पंजीकृत डाक से भेजें:

केजी टैफिक मार्केटिंग लिमिटेड के लिये हस्ता./- (अनिमेश मिश्रा (निदेशक) (DIN: 08167859)

पताः सी ००४, नागार्जुन ग्रीन रिइज, 19वां मैन ले आउट, बैंग्लोर दक्षिण-560102 पंजीकृत कार्यालयः सी-700, न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110025 तिथि: 20.8.2020, स्थान: नई दिर्ल्ल

याचिका के तहत राहत का विकल्प खत्म होने तक के लिए रोक लगाई जाए। प्रशासन ने कहा, नेकां का कोई नेता

हिरासत में नहीं जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 19 अगस्त।

जम्मू–कश्मीर हाई कोर्ट को स्थानीय प्रशासन ने जानकारी दी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 16 नेताओं में से कोई भी हिरासत में नहीं है। इस जानकारी के बाद पार्टी ने गुरुवार को वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाने का फैसला किया। नेकां ने अदालत में दावा किया था कि उसके 16 नेताओं को गैरकानूनी तरीके से बंधक बनाया गया है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि मामले में दाखिल जवाब के अध्ययन के दौरान पार्टी ने गौर किया कि सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि कोई नेता हिरासत में नहीं है और जरूरी सुरक्षा उपायों के साथ कहीं भी आने-जाने को स्वतंत्र है।' पार्टी ने कहा, 'हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत सरकार के रुख पर भरोसा करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है।

Wall Street Exchange Centre LLC

| | | 2019 | 2018 |
|---|-------|--------------|---------------|
| | Notes | AED | AED |
| INCOME | | | |
| Gain on currency exchange | | 29,753,395 | 53,881,566 |
| Unrealised gain on fair value of derivative financial instruments | 54 | 150,429 | 93,659 |
| Commission income (net) | 4 5 | 17,571,142 | 26,668,602 |
| Other income | 5 | 10,913,232 | 4,926,741 |
| TOTAL INCOME | | 58,388,198 | 85,570,568 |
| EXPENDITURE | | | |
| Staff salaries and benefits | | (40,524,156) | (49,227,578) |
| General and administrative expenses | 6 | (41,951,564) | (50,038,425) |
| Provision for expected credit losses, net | | (644,499) | (2,168,692) |
| Finance cost | | (7,640,664) | (5,627,604) |
| Provision for impairment of a subsidiary | 26 | | (2,378,046) |
| TOTAL EXPENDITURE | | (90,760,883) | (109,440,345) |
| LOSS FOR THE YEAR | | (32,372,685) | (23,869,777) |
| Other comprehensive income | | | 200 |
| TOTAL COMPREHENSIVE LOSS | | (32,372,685) | (23,869,777) |

SEPARATE STATEMENT OF FINANCIAL POSITION As at 31 December 2019

| | Notes | 2019 AED | 2018 AED |
|--|-------|--------------|--------------|
| ASSETS | | | |
| Bank balances and cash | 7 | 245,751,784 | 310,203,916 |
| Due from correspondents, exchange houses and customers | 8 | 1,139,838 | 18,067,169 |
| Due from related parties | 18 | 28,632,193 | 51,337,153 |
| Prepayments and other assets | 9 | 22,876,376 | 21,441,292 |
| Invostment in subsidiaries | 10 | 3,358,539 | 3,368,414 |
| Right of use assets | 11 | 5,848,967 | |
| Property and equipment | 12 | 3,338,478 | 4,787,006 |
| | | 310,946,175 | 409,204,950 |
| Assets held for disposal | 26 | 48,476 | 65,360 |
| TOTAL ASSETS | | 310,994,651 | 409,270,310 |
| EQUITY AND LIABILITIES | | | |
| EQUITY | 4.4 | 00 400 000 | 50 000 000 |
| Share capital | 13 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| Statutory reserve | 14 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| Capital reserve | 14 | 2,611,969 | 2,611,969 |
| Accumulated losses | | (46,517,458) | (14,035,943) |
| TOTAL EOUTTY | | 116,094,511 | 148,576,026 |

TOTAL EQUITY Due to banks Due to correspondents, exchange houses and customers 18 Due to related party Accrued expense and other liabilities Lease liability Employees' end of service benefits 18 Loan from a related party

Liabilities directly associated with assets held for disposal TOTAL LIABILITIES

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

Director

Chief Executive Officer

33,366,640

15,334,389

2,888,348

23,975,553

4,837,441

8,936,833

100,400,000

189,739,204

5,160,936

194,900,140

310,994,651

91,916,997

27,735,051

20,729,907

14,742,698

100,400,000

255,524,653 5,169,631

260,694,284

409,270,310